

Our New Email-Id:  
bolkol@globalbol.com

ॐ श्री माँ  
जय श्री माँ

Phone : + 91 - 33 - 2229-5472 / 8005 / 6257  
Fax : + 91 - 33 - 2217-2990  
E-mail :

**BHAGAWATI OXYGEN LIMITED**  
67, PARK STREET, KOLKATA - 700 016 (INDIA)

Date: 04.11.2020

To  
Corporate Relationship Department  
Bombay Stock Exchange Ltd  
Phiroze Jeejeebhoy Tower  
25<sup>th</sup> Floor, Dalal Street  
Mumbai-400 001

**Script Code : 509449**

**Sub : Publication of Notice of Board meeting to be held on 12th November, 2020**


Dear Sir,

Pursuant to regulation 47 (1) (a) of SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith copy of Notice of Board meeting to consider and take on record inter alia the Un-Audited Financial Result of the company for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2020 to be held on 12th November, 2020, published in newspapers namely, Business Standard (English) and Business Standard (Hindi).

Kindly take the same on record and acknowledge.

Thanking you,

For Bhagawati Oxygen Limited



Ritu Damani  
Company Secretary  
Encl above:

**BHAGAWATI OXYGEN LIMITED**  
(CIN : L74899HR1972PLC006203)  
Regd. Office : Sector-25, Plot-5,  
Ballabgarh -121 004, Haryana

**NOTICE**  
Notice is hereby given with  
Stock Exchange, that a meeting  
of the Board of Directors of  
the Company will be held on  
Thursday, 12th November, 2020  
at 03:30 PM, at 67 Park street,  
Kolkata-700016 to consider and  
approve the Un-audited Financial  
Results of the Company for the  
quarter and half year ended 30th  
September, 2020.

The said information is also  
available on the Company's  
website at [www.globalbol.com](http://www.globalbol.com)  
and also available on the  
website of stock Exchange at  
[www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)

By Order of the Board  
Sd/-  
Place : Kolkata S. K. Sharma  
Date : 02.11.2020 Chairman

**PUBLIC NOTICE**  
**CAUTION AGAINST FRAUDULENT  
MISREPRESENTATION AND CHEATING  
BY EDUTALENT SGI PVT LTD.**  
It has come to the notice of our client  
Univision, master distributor of Lifesraw  
products that a company namely  
Edutalent SGI Pvt Ltd. having its office at  
206, FF, Vinoba puri, Lalpat Nagar-II, New  
Delhi-110024 and its Director namely  
Satam Patnalk has cheated some people  
by impersonating as authorized  
distributors of Lifesraw filters. All the  
customers and the public at large are  
advised to be cautious about any such  
frauds or misleading persons/entities.  
Univision or Lifesraw will not be liable for  
any loss or damages arising out of such  
fraudulent transactions or act of cheating  
committed by Edutalent SGI Pvt Ltd or its  
directors. Should you come across any  
such fraudulent incident or have any  
information regarding misrepresentation  
by Edutalent SGI Pvt Ltd. or its Director,  
please assist us in taking appropriate  
action to curb such malafide activities or  
at once report the same to your nearest  
police station.

MOHIT BHARDWAJ  
ADVOCATE  
Ch No.56,Patiala House Courts,  
New Delhi-110001

**MAJESTIC AUTO LIMITED**  
CIN No. L35911DL1973PLC353132  
REGD. OFFICE: 10, SOUTHERN AVENUE,  
MAHARANI BAGH, NEW DELHI  
CORPORATE OFFICE: A-110,  
SECTOR-4, NOIDA-201301  
CONTACT NUMBER: 0120-4349007,  
EMAIL ID: [grievance@majesticauto.in](mailto:grievance@majesticauto.in)

**NOTICE**  
Notice is hereby given Pursuant to  
the Regulation 29 and 47 of Securities and  
Exchange Board of India (Listing  
Obligations and Disclosure Requirements)  
Regulations, 2015 ("Listing Regulations")  
that a Meeting of the Board of Directors of  
the Company will be held on **Monday, the  
9th day of November, 2020**, to inter alia,  
consider and approve the Standalone and  
Consolidated Unaudited Financial Results  
of the Company for the quarter and half  
year ended 30th September 2020.  
The information contained in this notice is  
also available on the company website  
[www.majesticauto.in](http://www.majesticauto.in) and also on Stock  
Exchange website [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

For Majestic Auto Limited  
Sd/-  
Place: Noida (Juhi Garg)  
Date : 03.11.2020 Company Secretary

**ANDHRA PRADESH  
TANNERIES LIMITED**  
Regd. Office : Leather Complex Area,  
Nallamraju-532517.  
CIN:- L19110AP1974PLC001711  
Email:- [sugandha78@rediffmail.com](mailto:sugandha78@rediffmail.com)  
Phone:- 022-24934923  
Fax: 022-24934924  
Website : [www.aptl.net.in](http://www.aptl.net.in)

Pursuant to the Regulation 47 (1)  
(a) of the SEBI (Listing Obligations  
and Disclosure Requirements)  
Regulations, 2015, Notice is hereby  
given that a Meeting of the Board  
of Directors of the Company will  
be held on Thursday, November 12,  
2020 to inter-alia consider and to  
approve the Unaudited Financial  
Results for the quarter and half  
year ended 30.09.2020.  
The notice of board meeting is  
uploaded on the website of the  
company at [www.aptl.net.in](http://www.aptl.net.in)  
and also on the website of the Stock  
Exchange at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)

For and on behalf of the Board,  
**For Andhra Pradesh Tanneries  
Limited**  
Sd/-  
Sugandha Shelatkar  
Director  
Place: Mumbai DIN: 06906156  
Date: 02.11.2020

**GOVERNMENT OF JAMMU & KASHMIR  
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER PMGSY (JKRRDA) JAMMU.**  
**NOTICE INVITING E-TENDERS**  
e-NIT No:-CE/JPMGSY/607 of 2020-21 Dated:29/10/2020  
Chief Engineer PMGSY (JKRRDA) Jammu on behalf of The  
Government of Jammu & Kashmir, invites e-tenders on %age  
Above/Excess (+) OR %age Below/ Less (-) basis (i.e. on  
Percentage-Rate Basis) from approved and eligible Contractors  
registered with J&K State Govt, CPWD, Railways or equivalent  
and other State Govts upto 5.00 PM on 12-11-2020 for each of the  
following works including Maintenance Period of five years after  
construction.  
S.No. 1 Name of Work/ Package No. :- Re-construction of 52.00 mtr.  
Span Through Type Steel Girder Motorable Bridge on "Garhi to  
GathyalMori" Road At RD 10/275 to 10/327, Package No. JK14-490  
in Block Udhampur, District Udhampur.  
Adv. Cost excluding maintenance but inclusive of GST =  
Rs.118.44 Lacs  
Name of the PIU :- Udhampur, Constt. Part (Rs. In Lacs) :- 118.44,  
Maint. Part (Rs. In Lacs) :- ---, Total (Rs. In Lacs) :- 118.44, Cost of  
documents (Rs in Lacs) :- 0.06, Earnest Money (Rs. In Lacs) :-  
2.37, Time Allowed for completion :- 09 Months, Call tender :- 1<sup>st</sup>,  
Time and date of opening of tenders :- 13-11-2020 10.00 AM.  
Class of contractor :- Any registered contractor with State  
PWD/CPWD/ Railways or equivalent qualifying eligibility criteria as  
provided in the Standard Bidding Documents can tender for the works.  
1.(a) The Bidding documents can be downloaded from the website  
<http://pmgsytendersjk.gov.in> from 06.55 P.M on 03-11-2020 to  
12-11-2020 (5.00PM).  
(b) The Bids shall be deposited in electronic format on the website  
<http://pmgsytendersjk.gov.in> from 05.00 PM on 06-11-2020 to  
05.00 PM on 12-11-2020.  
Sd/- Chief Engineer PMGSY  
(JKRRDA) Jammu  
No. DIP/J-6636/20 Dated: 02.11.2020

**FORM NO. CAA. 2**  
[Pursuant to Section 230(3) and Rule 6 and 7]  
**BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL  
DIVISION BENCH, DELHI BENCH III**  
(COMPANY APPLICATION NO. :CA(CAA)-72/ND/2020)  
IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 2013  
AND  
IN THE MATTER OF SECTIONS 230-232 READ WITH SECTION 66 OF THE  
COMPANIES ACT, 2013 AND COMPANIES (COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND  
AMALGAMATIONS) RULES, 2016  
AND  
IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION BETWEEN  
Firefly E-Ventures Limited and HT Digital Media Holdings Limited and HT Education  
Limited and HT Learning Centers Limited and India Education Services Private Limited  
and Topnovies Entertainment Limited and HT Mobile Solutions Limited and their  
respective shareholders and creditors

**FIREFLY E-VENTURES LIMITED**  
CIN: U74140DL2007PLC164566  
Registered Office: Hindustan Times House,  
18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001

**NOTICE AND ADVERTISEMENT OF MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS OF  
FIREFLY E-VENTURES LIMITED (APPLICANT COMPANY 1) TRANSFEROR COMPANY 1  
"COMPANY"**

NOTICE is hereby given that by an Order dated October 12, 2020 ("Order"), the Division  
Bench, Delhi Bench III of Hon'ble National Company Law Tribunal ("Tribunal") has directed to  
conduct and hold meeting of Equity Shareholders of Firefly E-Ventures Limited ("Meeting"),  
for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification,  
the Scheme of Amalgamation ("Scheme") between Firefly E-Ventures Limited ("Transferor  
Company 1"), HT Digital Media Holdings Limited ("Transferor Company 2"), HT Education  
Limited ("Transferor Company 3"), HT Learning Centers Limited ("Transferor Company 4"),  
India Education Services Private Limited ("Transferor Company 5") and Topnovies  
Entertainment Limited ("Transferor Company 6") (hereinafter collectively referred to as  
"Transferor Companies") with HT Mobile Solutions Limited ("Transferee Company") and  
their respective shareholders and creditors.

In pursuance of the said Order, and as directed therein, notice is hereby given that a Meeting of  
the Equity Shareholders of the Company will be held on Monday, December 07, 2020 at 10.30  
A.M., through video conferencing ("VC"). Notice of the Meeting along with corresponding  
annexure and web-link to join the Meeting electronically, has been sent to Equity Shareholders  
at their registered email addresses on Tuesday, November 03, 2020.

The voting rights of the Equity Shareholders shall be in proportion to their shareholding in the  
Company as on the close of the business hours of May 31, 2020 ("cut-off date"). All the existing  
Equity Shareholders, whose name is recorded in the Register of Members as on the cut-off  
date, shall be entitled to cast vote at the Meeting of Equity Shareholders.

In terms of said Order of the Hon'ble Tribunal, Equity Shareholders are entitled to cast their  
votes in person at the Meeting to be held through VC on December 07, 2020 on the resolution  
for approval of the Scheme. In case of appointment of proxy, a duly filled and signed proxy form  
is required to be deposited at the registered office of the Company, not later than 48 (forty eight)  
hours before the time fixed for holding the Meeting.

The Equity Shareholders are requested to read the instructions provided in the Notes to the  
notice of the Meeting carefully. Copies of said Scheme, explanatory statement as prescribed  
under Section 230 along with all annexures to such statement and form of proxy can be  
obtained, free of charge at the registered office of the Company.

A body corporate which is an Equity Shareholder is requested to email the copy of Board  
Resolution/authorization letter etc. for appointment of a representative, as prescribed under  
Section 113 of the Act, to the Scrutinizer at [csalilchaudhary1@gmail.com](mailto:csalilchaudhary1@gmail.com), not later than 48  
(forty eight) hours before the time fixed for holding the Meeting.

The Hon'ble Tribunal has appointed Shri N.C. Khanna, Practising Company Secretary as  
Chairman and failing him, Shri Manish Gupta, Practising Company Secretary as Alternate  
Chairman of the said Meeting, including for any adjournment(s) thereof. The Tribunal has also  
appointed Shri Lalit Chaudhary, Practising Company Secretary as the Scrutinizer for the said  
Meeting to conduct the voting in a fair and transparent manner, including for any  
adjournment(s) thereof.

The abovementioned Scheme, if approved at the said Meeting, will be subject to the  
subsequent approval of Hon'ble Tribunal.

The results of the Meeting shall be announced by the Chairperson on or before Thursday,  
December 10, 2020 upon receipt of Scrutinizer's report.

Sd/-  
Date: November 03, 2020 N.C. Khanna  
Place: New Delhi Chairperson appointed for the Meeting

**Gillette India Limited**  
CIN: L28931MH1984PLC267130  
Registered Office : P&G Plaza, Cardinal Gracias Road, Chakala, Andheri (E),  
Mumbai 400 099.  
Tel: (91-22) 2826 6000; Fax: (91-22) 2826 7337. Website: [im.pg.com](http://im.pg.com)  
Investor helpline nos.: 86575 12368 / 86575 00524

**NOTICE**  
NOTICE is hereby given that the Thirty-Sixth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of  
the Company will be held on **Wednesday, November 25, 2020**, at 11.00 a.m., through Video  
Conference ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the General Circular  
numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular  
number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by the Securities and Exchange Board of  
India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") without the physical presence of  
members, at a common venue, in view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, to  
transact the business set out in the Notice calling the AGM.

In accordance with, the General Circular No. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020 issued by MCA and  
Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12<sup>th</sup> May, 2020 issued by SEBI, the Annual  
Report for the Financial Year 2019-20, including the Notice of AGM have been sent in electronic  
mode to Members on November 2, 2020 whose e-mail address is registered with the Company. The  
copy of the Notice along with the Annual Report is also available on the Company's  
website: <https://in.pg.com/india-investors/gil/shareholder-information/info/#annual-report>  
as well as on the websites of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National stock Exchange of  
India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Instructions for joining the AGM through VC are provided in the notice convening the AGM.  
Participation of members through VC/OAVM will be reckoned for the purpose of quorum for the AGM  
as per section 103 of the Companies Act, 2013.

Shareholders who would like to express their views/questions, may register themselves  
as a speaker by sending their request in advance mentioning their name, demat account  
number/ folio number, E-mail id, mobile number at [investorgil.im@pg.com](mailto:investorgil.im@pg.com) from the date of this  
notice up to November 22, 2020 (5:00 p.m. IST). Those Members who have registered  
themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the AGM.  
The Company reserves the right to restrict the number of speakers and number of questions  
depending on the availability of time for the AGM.

All documents referred to in the Notice will also be available for electronic inspection without  
any fee by the members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM, i.e.  
November 25, 2020. Members seeking to inspect such documents can send an email to  
[investorgil.im@pg.com](mailto:investorgil.im@pg.com).

NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with  
Rules framed there under, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company  
will remain closed from **Thursday, November 19, 2020, to Wednesday, November 25, 2020**  
(both days inclusive), for the purpose of determining the names of Members eligible for final  
dividend on Equity Shares, if declared at the 36<sup>th</sup> AGM.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules  
framed there under and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing  
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing facility of  
remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. The remote  
e-voting period commences on **Friday, November 20, 2020 at 9:00 a.m.** and ends on **Tuesday,  
November 24, 2020 at 5:00 p.m.** During this period, Members of the Company, holding shares  
either in physical form or in dematerialised form, as on November 18, 2020, may cast their vote  
electronically. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a  
resolution is cast by a Member, he shall not be allowed to change it subsequently. The Company has  
appointed M/s. Saraf & Associates, Practising Company Secretaries, represented by  
Mr. Kamalax Saraf, Proprietor to act as the Scrutinizer, for conducting the scrutiny of the votes cast.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners  
maintained by the depositories as on the **cut-off date, i.e., Wednesday, November 18, 2020** only  
shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM and voting  
thereafter. Instructions and procedure for e-voting are set out in the notice of the AGM. Those who  
have not registered their e-mail addresses, for e-voting may follow the instructions mentioned  
below:

- In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder,  
scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of  
PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to  
[info@masserv.com](mailto:info@masserv.com) and [investorgil.im@pg.com](mailto:investorgil.im@pg.com);
- In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or  
16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement,  
PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of  
Aadhar Card) to [info@masserv.com](mailto:info@masserv.com) and [investorgil.im@pg.com](mailto:investorgil.im@pg.com).

In case of any queries, on e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for  
Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of  
[www.evoting.nsl.com](http://www.evoting.nsl.com) or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to  
[evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)

Members are requested to register / update bank details to enable electronic modes of transfer for  
dividends and in this regard:

- Members holding shares in electronic form are requested to furnish their bank details to their  
Depository Participants ("DPs").
- Members holding shares in physical form are requested to furnish their bank details,  
alongwith a photocopy of a blank cancelled cheque pertaining to their bank account to the  
Registrar and Share Transfer Agent, ("RTA"), M/s. MAS Services. Ltd.

For instructions on joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting  
during the AGM, members are requested to refer to the Notice of the AGM.

Further, Shareholders may note that, in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961  
("the Act") as amended by and read with the provisions of the Indian Finance Act, 2020, dividend  
declared and paid by the Company after April 1, 2020, is taxable in the hands of shareholders and  
the Company is required to deduct the tax at source ("TDS") on the distribution of dividend income to  
its shareholders at the applicable rates. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate  
as applicable, shareholders are requested to submit the requisite documents as mentioned in our  
letter dated September 28, 2020, which is put up on the website at <https://in.pg.com/india-investors/gil/reports-announcements/announcements/announcements>, in order facilitate  
company to deduct TDS at time of final dividend. The said documents (duly completed and signed)  
are required to be emailed to Company's RTA at [info@masserv.com](mailto:info@masserv.com) on or before **November 15,  
2020** in order to enable the Company to determine and deduct appropriate TDS. For any  
clarification, please write to us at [info@masserv.com](mailto:info@masserv.com) or [investorgil.im@pg.com](mailto:investorgil.im@pg.com).

By order of the Board  
For Gillette India Limited  
Sd/-  
Place : Mumbai  
Date : November 3, 2020  
Ghanashyam Hegde  
Company Secretary

**MENTOR HOME LOANS INDIA LTD**  
(Formerly known as Mentor India Limited)  
HEAD OFFICE- Mentor House, B-9, Govind Marg, Sethi colony, Jaipur-302004  
Phone: 0141-2611999, 8946800800, E-Mail: [legal01@mentorloans.co.in](mailto:legal01@mentorloans.co.in)

**APPENDIX IV [See Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable property)**  
Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Mentor Home Loans India Ltd. (Formerly known as Mentor India Limited) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) Read With Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice (S) issued by the Authorised Officer of the Company to the Borrower(S) / Co-Borrower(S) / Guarantor(S) mentioned herein below to repay amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of said notice as per the details given in below table: The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(S) / Co-Borrower(S) / Guarantor(S) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under Sub-Section (4) of the section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002.

S. No.	Name of the Borrower (S) / Co-Borrower (S) / Guarantor(S) & (Loan Account Number)	Date & Amount of Notice u/s 13(2)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Date of Physical Possession
1.	Ramdev Gurjar, Lal Devi, Guarantor- Narayan Gurjar LAN No.-MHL05057	30-May-19 Rs. 96653/- Dues As On 29-May-2019	Patta No. 10, Gram Jaravarpura (Pithawas), Gram Panchayat Devmali, Panchayat Samiti Masuda, Dist. Ajmer, Rajasthan, Total Measuring Area 193.33 Sq. Yds.	31/Oct/2020

The borrower(S) / Co borrower(S) / Guarantor(S) attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.  
The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Mentor Home Loans India Ltd. (Formerly known as Mentor India Limited) for an amount, amount mentioned here under with interest thereon.  
Date: 04-11-2020 Place: Ajmer  
Authorized officer, Mentor Home Loans India Ltd.  
(Formerly known as Mentor India Limited)

**Canara Bank**  
(A Govt. of India Undertaking)  
POSSESSION NOTICE  
(For Immovable Property)

Where as, the undersigned being the authorised officer of the Canara Bank under, the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of Powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on the date mentioned against account (details of which have been mentioned) calling upon the borrower and also owner of the property/surety to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the receipt of the said notice. The respective Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 rule. The borrower's attention is invited to provisions of subsection (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset. The Borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank, Respective Branch for the amount mentioned below plus interest thereon along with other expenses.

S/Sl. No.	Name of the Borrower/Guarantor	Description of the Immovable Property/ies	Possession Date	Date of Demand Notice & Amount as per Notice
1.	Branch: JAHIDPUR Borrowers: Choudhary Azad S/o Choudhary Fateh and Mehd. Sabir S/o Fahimuddin	All that is part and parcel of a plot of 1200 sq. metres, bearing Khaska No. 172, out of total land area 3477.65 sq. metres at Village Kudhala, Pargana, Teshil and Distt. Meerut Bounded: On the North by: 86.94 mt./Land of Yunus On the South by: 87.04 mt./Land of Jaan Moham -mad On the East: 37.95 mt./House of Bhattar, Mainuddin, Rashid etc On the West by: 41.99 mt./18 feet wide road, Owner: Choudhary Ajad	29.10.2020	09.12.2019 Rs. 36,12,979.50 + interest & other expenses
2.	Branch: MAWANA Borrowers: Sh. Ajay Singh, S/o Mamildar Singh	One residential house total measuring area 60.01 Sq meter situated at North east facing house No 28 at Shri Sal Dham Colony, Munna Lal Mawana Distt Meerut Bounded: On the North by: 24 ft 2" Rasta, On the South by: 23Ft 11" Plot No 24 Owners Ramji Lal, On the East by: 28Ft 9" Plot No 25 K P Singh, On the West by: 25 Ft 3/2 "Plot no 27 Owners Ramji Lal, Owner: Ajay Singh	03.11.2020	19.03.2019 Rs. 9,58,524.25 + interest & other expenses

Date - 03.11.2020 Place: Meerut Authorized Officer

**FORM NO. CAA. 2**  
[Pursuant to Section 230(3) and Rule 6 and 7]  
**BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL  
DIVISION BENCH, DELHI BENCH III**  
(COMPANY APPLICATION NO. :CA(CAA)-72/ND/2020)  
IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 2013  
AND  
IN THE MATTER OF SECTIONS 230-232 READ WITH SECTION 66 OF THE  
COMPANIES ACT, 2013 AND COMPANIES (COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND  
AMALGAMATIONS) RULES, 2016  
AND  
IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION BETWEEN  
Firefly E-Ventures Limited and HT Digital Media Holdings Limited and HT Education  
Limited and HT Learning Centers Limited and India Education Services Private Limited  
and Topnovies Entertainment Limited and HT Mobile Solutions Limited and their  
respective shareholders and creditors

**HT DIGITAL MEDIA HOLDINGS LIMITED**  
CIN: U74900DL2007PLC169717  
Registered Office: Hindustan Times House, Second Floor,  
18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001

**NOTICE AND ADVERTISEMENT OF MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS OF HT  
DIGITAL MEDIA HOLDINGS LIMITED (APPLICANT COMPANY 2) TRANSFEROR  
COMPANY 2 "COMPANY"**

NOTICE is hereby given that by an Order dated October 12, 2020 ("Order"), the Division  
Bench, Delhi Bench III of Hon'ble National Company Law Tribunal ("Tribunal") has directed to  
conduct and hold meeting of Equity Shareholders of HT Digital Media Holdings Limited ("Meeting"),  
for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification,  
the Scheme of Amalgamation ("Scheme") between Firefly E-Ventures Limited ("Transferor  
Company 1"), HT Digital Media Holdings Limited ("Transferor Company 2"), HT Education  
Limited ("Transferor Company 3"), HT Learning Centers Limited ("Transferor Company 4"),  
India Education Services Private Limited ("Transferor Company 5") and Topnovies  
Entertainment Limited ("Transferor Company 6") (hereinafter collectively referred to as  
"Transferor Companies") with HT Mobile Solutions Limited ("Transferee  
Company") and their respective shareholders and creditors.

In pursuance of the said Order, and as directed therein, notice is hereby given that a Meeting of  
the Equity Shareholders of the Company will be held on Monday, December 07, 2020 at 11.00  
A.M., through video conferencing ("VC"). Notice of the Meeting along with corresponding  
annexure and web-link to join the Meeting electronically, has been sent to Equity Shareholders  
at their registered email addresses on Tuesday, November 03, 2020.

The voting rights of the Equity Shareholders shall be in proportion to their shareholding in the  
Company as on the close of the business hours of May 31, 2020 ("cut-off date"). All the existing  
Equity Shareholders, whose name is recorded in the Register of Members as on the cut-off  
date, shall be entitled to cast vote at the Meeting of Equity Shareholders.

In terms of said Order of the Hon'ble Tribunal, Equity Shareholders are entitled to cast their  
votes in person at the Meeting to be held through VC on December 07, 2020 on the resolution  
for approval of the Scheme. In case of appointment of proxy, a duly filled and signed proxy form  
is required to be deposited at the registered office of the Company, not later than 48 (forty eight)  
hours before the time fixed for holding the Meeting.

The Equity Shareholders are requested to read the instructions provided in the Notes to the  
notice of the Meeting carefully. Copies of said Scheme, explanatory statement as prescribed  
under Section 230 along with all annexures to such statement and form of proxy can be  
obtained, free of charge at the registered office of the Company.

A body corporate which is an Equity Shareholder is requested to email the copy of Board  
Resolution/authorization letter etc. for appointment of a representative, as prescribed under  
Section 113 of the Act, to the Scrutinizer at [csalilchaudhary1@gmail.com](mailto:csalilchaudhary1@gmail.com), not later than 48  
(forty eight) hours before the time fixed for holding the Meeting.

The Hon'ble Tribunal has appointed Shri N.C. Khanna, Practising Company Secretary as  
Chairman and failing him, Shri Manish Gupta, Practising Company Secretary as Alternate  
Chairman of the said Meeting, including for any adjournment(s) thereof. The Tribunal has also  
appointed Shri Lalit Chaudhary, Practising Company Secretary as the Scrutinizer for the said  
Meeting to conduct the voting in a fair and transparent manner, including for any  
adjournment(s) thereof.

The abovementioned Scheme, if approved at the said Meeting, will be subject to the  
subsequent approval of Hon'ble Tribunal.

The results of the Meeting shall be announced by the Chairperson on or before Thursday,  
December 10, 2020 upon receipt of Scrutinizer's report.

Sd/-  
Date: November 03, 2020 N.C. Khanna  
Place: New Delhi Chairperson appointed for the Meeting

**Aadhar Housing Finance Ltd.**  
Corporate Office : 201, Raheja Point-1, Near SVC Bank, Vakola, Nehru Road,  
Santacruz (East), Mumbai - 400055  
LAXMI NAGAR Branch Office: 2nd floor, WA-122, Mother Dairy Road, Near Vishal Medicos, Shakarpur, Delhi-110092  
Mob. No. 9802000309

**PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CUM SALE**  
Pursuant to taking possession to the secured asset mentioned hereunder by the authorized officer of aadhar Housing Finance Limited under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 for the recovery of amount due from borrower/s, offers are invited by the undersigned in sealed covers for purchase of immovable property, as described hereunder, which is in the physical possession , on "As is Where is Basis" "As is What is Basis" and "Whatever is There is Basis". Particulars of which are given below:

S. No.	Borrower(s) / Co-Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable property	Reserve Price (RP)	Earnest Money Deposit (EMD) (10%)
1.	(Loan App. No: D1594379 of LAXMI NAGAR Branch) Chandra Prakash (Borrower) Narmada Devi Nautiyal (Co-Borrower)	10-Dec-19 Rs. 10,70,831/- (Rupees Ten Lakh Seventy Thousand Eight Hundred Thirty One Only)	Plot No-59, RLF City Bhiwadi Alwar, Bhiwadi, Rajasthan-301019 Bounded by: East: Plot No.60, West: Plot No. 58, North: Khaska No. 432/19, South: Road 9 Mtr	Rs. 5,83,320/-	Rs. 58,332/-

(1) Last Date of Submission of Sealed Bid/Offer in the prescribed tender forms along with EMD and KYC is 05.12.2020 within 5:00 PM at the Branch Office address mentioned herein above. Tenders that are not filled up or tenders received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD.  
(2) Date of Opening of the Bid/Offer (Auction Date) for Property is 07.12.2020 at the above mentioned branch office address at 3:00 PM. The tender will be opened in the presence of the Authorized officer.  
(3) The Notice is hereby given to the Borrower/s and Guarantor/s, to remain present personally at the time of sale and they can bring the intending buyers/purchasers for purchasing the immovable property as described herein above, as per the particulars of Terms and Conditions of Sale.  
(4) 30 Days Sale Notice Under Sarfaesi Act, 2002 is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s), Co-Borrower(s) and Guarantor(s) that the above described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" and to pay the amount due to Aadhar Housing Finance Ltd., In full before the date of sale, auction is liable to be stopped.  
(5) The immovable property will be sold to the highest bidder. However, the Authorized Officer reserves the absolute discretion to allow inter se bidding, if deemed necessary. The Property as mentioned will not be sold below Reserve Price.  
(6) AHFL is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the property as mentioned above. The Property shall be auctioned on "As is Where is Basis", "As is What is Basis" and "Whatever is There is Basis".  
(7) The Demand Draft should be made in favor of "Aadhar Housing Finance Limited" Only.  
(8) The detail terms and conditions of the auction sale are incorporated in the prescribed tender form. Tender forms are available at the above mentioned Branch office. Authorized officer reserve the rights to extend the date of tender or change the terms & conditions of bidding. For further details & other terms & Conditions of bidding please visit our Branch and website: [www.aadharhousing.com](http://www.aadharhousing.com).  
Sd/-  
For further details, contact the authorised Officer, at the above mentioned Officer address.  
Place: Bhiwadi Date: 03.11.2020 Authorized officer Aadhar Housing Finance Limited

**Canara Bank**  
(A Govt. of India Undertaking)  
POSSESSION NOTICE  
(For Immovable Property)

Where as, the undersigned being the authorised officer of the Canara Bank under, the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of Powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on the date mentioned against account (details of which have been mentioned) calling upon the borrower and also owner of the property/surety to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the receipt of the said notice. The respective Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 rule. The borrower's attention is invited to provisions of subsection (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset. The Borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank, Respective Branch for the amount mentioned below plus interest thereon along with other expenses.

S/Sl. No.	Name of the Borrower/Guarantor	Description of the Immovable Property/ies	Possession Date	Date of Demand Notice & Amount as per Notice
1.	Branch: JAHIDPUR Borrowers: Choudhary Azad S/o Choudhary Fateh and Mehd. Sabir S/o Fahimuddin	All that is part and parcel of a plot of 1200 sq. metres, bearing Khaska No. 172, out of total land area 3477.65 sq. metres at Village Kudhala, Pargana, Teshil and Distt. Meerut Bounded: On the North by: 86.94 mt./Land of Yunus On the South by: 87.04 mt./Land of Jaan Moham -mad On the East: 37.95 mt./House of Bhattar, Mainuddin, Rashid etc On the West by: 41.99 mt./18 feet wide road, Owner: Choudhary Ajad	29.10.2020	09.12.2019 Rs. 36,12,979.50 + interest & other expenses
2.	Branch: MAWANA Borrowers: Sh. Ajay Singh, S/o Mamildar Singh	One residential house total measuring area 60.01 Sq meter situated at North east facing house No 28 at Shri Sal Dham Colony, Munna Lal Mawana Distt Meerut Bounded: On the North by: 24 ft 2" Rasta, On the South by: 23Ft 11" Plot No 24 Owners Ramji Lal, On the East by: 28Ft 9" Plot No 25 K P Singh, On the West by: 25 Ft 3/2 "Plot no 27 Owners Ramji Lal, Owner: Ajay Singh	03.11.2020	19.03.2019 Rs. 9,58,524.25 + interest & other expenses

Date - 03.11.2020 Place: Meerut Authorized Officer

**FORM NO. CAA. 2**  
[Pursuant to Section 230(3) and Rule 6 and 7]  
**BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL  
DIVISION BENCH, DELHI BENCH III**  
(COMPANY APPLICATION NO. :CA(CAA)-72/ND/2020)  
IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 2013  
AND  
IN THE MATTER OF SECTIONS 230-232 READ WITH SECTION 66 OF THE  
COMPANIES ACT, 2013 AND COMPANIES (COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND  
AMALGAMATIONS) RULES, 2016  
AND  
IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION BETWEEN  
Firefly E-Ventures Limited and HT Digital Media Holdings Limited and HT Education  
Limited and HT Learning Centers Limited and India Education Services Private Limited  
and Topnovies Entertainment Limited and HT Mobile Solutions Limited and their  
respective shareholders and creditors

**HT DIGITAL MEDIA HOLDINGS LIMITED**  
CIN: U74900DL2007PLC169717  
Registered Office: Hindustan Times House, Second Floor,  
18-20, Kasturba Gandhi Marg,

